

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 21, 2001 (वैशाख 1, 1923)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 21, 2001 (VAISAKHA 1, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2
[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
(Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court)

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 अप्रैल 2001

म० ए० 38013/1/2001-पीएमए-सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप मणस्त्र सेना मुख्यालय आशु-लिपिक सेवा, रक्षा मंत्रालय के निजी सचिव श्री एल० आर० आहूजा ने जो प्रधानमंत्री के निजी स्टाफ में निजी सचिव के ही पद पर नियुक्त थे, दिनांक 31 मार्च, 2001 के अपराह्न से प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना पदभार छोड़ दिया है।

पी० के० राम अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल, 2001

स० आर एस०/2(11)/2001/22-कामिक-राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वॉरंटेड अधिशासी सहायक श्री विमल शंकर सिंह को श्री जगमोहन मुन्निवाल, अव-

सचिव के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण उत्पन्न श्रृंखला रिक्त पद पर 1 अप्रैल, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में विधायी / अधिशासी / समिति / न्यायाचार अधिकारी के संवर्ग में स्थापनापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

2 श्रीमती सुभाषा श्री पाणिग्राही, जिन्हें दिनांक 14 फरवरी, 2001 की अधिसूचना स० आर० एस०/2(ii)/2001/14-कामिक के द्वारा श्री जगमोहन मुन्निवाल, अवर सचिव के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण उत्पन्न श्रृंखला रिक्त पद पर विधायी / अधिशासी / समिति / न्यायाचार अधिकारी के संवर्ग में स्थापनापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को 1 अप्रैल, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त कर दिया गया है।

3 उपर्युक्त नियुक्तियां रिट याचिका स० 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले आदेशों के अधीन होगी।

वन्दना गर्ग, निदेशक

सं० आर० एस०/2(ii)/2001/22—कार्मिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में विधायी/अधिशासी/समिति/नयाचार अधिकारी के संवर्ग में अधिकारी श्रीमती सुनीता शेखरन को श्री जगमोहन सुन्दिवाल, अवर सचिव के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण उत्पन्न ऋंखला रिक्त पद पर 1 अप्रैल, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अवर सचिव/वेतन तथा लेखा अधिकारी के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

2. श्री उमेद सिंह मांडिया, जिन्हें दिनांक 14 फरवरी, 2001 की अधिसूचना सं० आर० एस०/2(ii)/2001/13/-कार्मिक के द्वारा श्री जगमोहन सुन्दिवाल, अवर सचिव के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण रिक्त हुए पद पर अवर सचिव/वेतन तथा लेखा अधिकारी के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को 1 अप्रैल, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त कर दिया गया है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियाँ रिट याचिका सं० 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले आदेशों के अधधीन होंगी।

बन्वना गर्ग, निदेशक

सं० आर० एस०/838/स्था०(का)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री महेन्द्र मांकला, अवर सचिव, 31 मार्च, 2001 के अपराह्न से सेवा-निवृत्त हो गए।

बन्वना गर्ग, निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 मार्च 2001

सं० एफ 15/10/2001/ए एन-1/जी एन-4554/2001—अध्यक्ष महोदय, श्री मजुल कुमार पांडे को 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में संसदीय भाषान्तरकार ग्रेड-2 के रूप में तदर्थ आधार पर 26 मार्च, 2001 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

दिनांक 30 मार्च 2001

सं० पी एफ 1713(3)/ए एन-1/जी एन-4555/2001—अध्यक्ष महोदय, 10,000—15,200 रुपये के वेतनमान में महायक निदेशक (सुरक्षा) के पद पर कार्यरत श्री टी० एम०

सेमुएल, जिन्हें दिनांक 21-12-2000 को अधिसूचना सं० जी एम-4513/2000 के द्वारा उप-निदेशक (सुरक्षा) कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई थी, को 12,000—375-16,500 रुपये के वेतनमान में उप-निदेशक (सुरक्षा) के रूप में 29 मार्च, 2001 से आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

सं० पी एफ 2120(3)/ए एन-1/जी एन-4556/2001—अध्यक्ष महोदय, 7450—11,500 रुपये के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सुरक्षा सहायकों, जिन्हें दिनांक 24-7-2000 की अधिसूचना सं० जी एन-4464/2000 के द्वारा सुरक्षा अधिकारी का पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई थी, को 8000—275-13,500 रुपये के वेतनमान में, सुरक्षा अधिकारी के रूप में स्थानापन्न आधार पर 29 मार्च, 2001 से आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करने हैं।

1. श्री बाल कृष्ण राम
2. श्री लाल चंद रायपरिया

उपर्युक्त व्यक्ति सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में 29 मार्च, 2001 से 28 मार्च, 2003 तक, दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बंगलूर-560094, दिनांक 30 मार्च 2001

सं० 3/1(2)/2001-1—अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष, केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने निवृत्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :—

क्र० सं०	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु०			
1.	एस० एम० गुर्जार	वैज्ञानिक/इंजीनियर	30-11-2000 एस० एफ
2.	के० एम० मीध्यु	वैज्ञानिक/इंजीनियर	30-11-2000 एस० एफ
3.	ए० उन्नीकृष्णन	प्रधान, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन	29-12-2000

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(2)/2001-I—अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री च० श्रीनिवास शास्त्री वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ ने स्वेच्छिक रूप से निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 05-01-2001 के पूर्वार्द्ध से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी

के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वार्द्ध से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	नियुक्ति की तिथि
1	2	3
श्री/श्रीमती/कु०		
1.	डा० सी० सुरेश राजु	14-11-2000
2.	डा० अमित कुमार पात्र	30-11-2000

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गयी तारीख के पूर्वार्द्ध से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :

क्र० सं०	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की तिथि
1	2	3	4	5
श्री/श्रीमती/कु०				
1.	आर० के० लुल्ला	क्रय अधिकारी	वरिष्ठ क्रय अधिकारी	29-11-2000
2.	एस० फिलोमिन राज	क्रय अधिकारी	वरिष्ठ क्रय अधिकारी	06-11-2000

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(2)/2001-I—अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों ने स्वेच्छिक रूप से निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप, प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के पूर्वार्द्ध से कार्यभार छोड़ दिया है :—

क्रम सं०	नाम	पद	कार्यभार छोड़ने की तिथि
----------	-----	----	-------------------------

श्री/श्रीमती/कु०

1. के० जे० जातवेदन वैज्ञानिक/इंजीनियर 24-01-2001
एस० एफ
2. ए० बी० हनुमन्त राव वैज्ञानिक/इंजीनियर 31-01-2001
एच
3. डा० ए०वी०एस० वैज्ञानिक/इंजीनियर-01-02-2001
एस०एस०आर० शर्मा जी
4. के० रामचन्द्रन पिल्लै वैज्ञानिक/इंजीनियर 01-02-2001
एस० ई
5. एम० रामकृष्णन वैज्ञानिक/इंजीनियर 07-02-2001
जी
6. के० रमणि वैज्ञानिक/इंजीनियर 01-03-2001
एस० जी

सं० 3/1(2)/2001-I :—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

क्रम सं०	नाम	पद	त्याग पत्र की तिथि
----------	-----	----	--------------------

श्री/श्रीमती/कु०

1. अजित सी० एस० वैज्ञानिक/इंजीनियर 29-12-2000
एस० एफ
2. एम० प्रीति वैज्ञानिक/इंजीनियर 08-02-2001
एस० सी
3. भरत भूषण वैज्ञानिक/इंजीनियर 15-02-2001
एस० सी
4. टी० जी० बलराम वैज्ञानिक/इंजीनियर 16-02-2001
एस० एफ

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(2)/2001-I.—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न में स्वीकार करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	पद	त्यागपत्र की तिथि
श्री/श्रीमती/कु०			
1.	पी० राधाकृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर	21-09-2000 एस० सी
2.	एस० प्रवीप पद्मन	वैज्ञानिक/इंजीनियर	29-09-2000 एस० डी
3.	संजय कुमार त्रिवेदी	वैज्ञानिक/इंजीनियर	03-11-2000 एस० सी
4.	राम धनी चौहान	वैज्ञानिक/इंजीनियर	06-11-2000 एस० सी
5.	टी० जयशेखर	वैज्ञानिक/इंजीनियर	24-11-2000 एस० डी
6.	एस० नारायणन	वैज्ञानिक/इंजीनियर	30-11-2000 एस० ई
7.	वी० के० नौशाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर	15-12-2000 एस० डी

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(2)/2001-I.—अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्त के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न में कार्यभार छोड़ दिया है :—

क्रम सं०	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु०			
1.	डा० एम०एम० मिह बिशत	वैज्ञानिक/इंजीनियर	29-12-2000 एस० जी
2.	के० कृष्णन नायर	वैज्ञानिक/इंजीनियर	31-01-2001 एस० एफ
3.	अब्रहम आई० मधु	वैज्ञानिक/इंजीनियर	31-01-2001 एस० एफ
4.	आर० चन्द्रसेनन पिल्लै	वैज्ञानिक/इंजीनियर	31-01-2001 एस० ई

के० एम० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(2)/2001-I.—अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री के० पी०

विजयन, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी ने अपने निवर्तन आयु प्राप्त के परिणामस्वरूप दिनांक 29-12-2000 के अपराह्न में कार्यभार छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(1)/2001-I.—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० सी के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु०		
01.	एस० अनूप	03-11-2000
02.	एस० रेण्मी	09-11-2000
03.	अनुराग सोबटी	07-12-2000
04.	ए० येजिल अरसु	19-01-2001
05.	रविकिरण, एन० के०	22-01-2001
06.	प्रसन्न जी०	24-01-2001
07.	आई० सुरेश	24-01-2001
08.	आर० एस० पुगजेती	31-01-2001
09.	शैलेन्द्र आई० तिवारी	01-02-2001
10.	सुदीप्त प्रमाणिक	02-02-2001

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(2)/2001-I.—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ श्री एम० वेकटरामन का दिनांक 01-01-2001 को हुई मृत्यु पर खेद प्रकट करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 5/1(1)/2001-I.—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० सी के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तिथि
1	2	3
श्री/श्रीमती/कु०		
01.	ब्रिजेश कुमार सोनी	19-12-2000
02.	राकेश प्रितमानी	29-12-2000
03.	के० आर० भुवनेश्वरी	29-12-2000
04.	जी० मीना	29-01-2001
05.	संगीता, के०	29-01-2001

1	2	3
06. जी० एम० अश्विन		29-01-2001
07. संजय परमानिक		02-02-2001
08. संजय मिस्तल		05-02-2001
09. अनेम श्रीदेवी		08-02-2001
10. जे० कलै सेल्वी		08-02-2001
11. संध्या रघुनाथ		12-02-2001
12. नारायण स्वामी एच० पी०		16-02-2001
13. अभिलाष प्रसाद		20-02-2001

के० एम० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 5/1(1)/2001-1—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एम० सी० के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के पूर्वान्त में आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु०	
01.	जी० एम० मल्लिकार्जुना	05-03-2001
02.	प्रताप नारायण चौरासिया	19-02-2001
03.	चेतन गंगसानी	05-03-2001

के० एम० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 5/1(1)/2001-1—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिये गये पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-07-2000 के पूर्वान्त में आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	पद जिससे पदोन्नत किया गया	पद जिस पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु०		
01.	एन० सी० भट	वैज्ञानिक/इंजीनियर एम० जी०	वैज्ञानिक इंजीनियर-जी०
02.	अरुण बात्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर एम० जी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी०

के० एम० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 5/1(1)/2001-1—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एम० सी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एम० जी० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2001 के पूर्वान्त में आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

श्री/श्रीमती/कु०

1. मनीष टिखा

2. एस० रामचन्द्रन

के० एम० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 5/1(2)/2001-1—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्री राजेश भास्कर, वैज्ञानिक/इंजीनियर एम० सी० का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 16-03-2001 के अपरान्त में स्वीकार करते हैं।

के० एम० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 5/1(2)/2001-1—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्री मनोज मिश्रा, वैज्ञानिक/इंजीनियर एम० सी० का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 09-03-2001 के अपरान्त में स्वीकार करते हैं।

के० एम० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/1(2)/2001-1—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में श्री मतीश कुमार सगटानी, वैज्ञानिक/इंजीनियर एम० ई० का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 28-02-2001 के अपरान्त में स्वीकार करते हैं।

के० एम० रामचन्द्रन, अवर सचिव

सं० 7/1(2)/2001-1—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव तोदन प्रणाली केन्द्र बेंगलूर में श्री अनिल कुमार एम० एम० वैज्ञानिक/इंजीनियर एम० जी० का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 05-03-2001 के अपरान्त में स्वीकार करते हैं।

के० एम० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 7/1(2)/2001-1—अन्तरिक्ष विभाग के द्रव तोदन प्रणाली केन्द्र, महुन्द्रगिरी में श्री सुकुमारन नायर एम० एन० वैज्ञानिक/इंजीनियर-एम० जी० ने स्वैच्छिक रूप से निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 20-02-2001 के पूर्वान्त में अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के० एम० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 7/1(1)/2001-1.—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बलियमला, निरुवन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियरों-एस० सी० के पद पर अस्थाई रूप में प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आठवें तक नियुक्त करने हैं :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु०	
1.	राजी आर्ज	18-01-2001
2.	अजि० एम० अम्माहा	22-01-2001
3.	अभिलाश पी० एम०	24-01-2001
4.	राजेश जी०	05-02-2001
5.	विनोद बाबू बी०	05-02-2001

के० एम० रामचन्द्र, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 मार्च 2001

सं० ए-19(583)/89-प्रशा० 2—योजना आयोग की दिनांक 16-8-2000 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, सुश्री रेणु सोबती, अनुसन्धान अधिकारी की योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी (शैक्षिक आयोजना) के रूप में हुई तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 12 फरवरी, 2001 से आगे छह माह की अवधि के लिये अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता हेतु गणना करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

दिनांक 26 मार्च 2001

सं० ए०-19(726) 96-प्रशा० 2—योजना आयोग के दिनांक 22 फरवरी, 2001 के समसंख्यक आदेश के अनुसरण में, डा० (मुश्री) मधुनिका गुक्ला, वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी (शैक्षिक योजना) योजना आयोग ने सरकारी सेवा से दिनांक 26-3-2001 (पूर्वाह्न) से त्यागपत्र की अनुमति मिलने के बाद अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है तथा योजना आयोग ने उन्हें दिनांक 26-3-2001 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 मार्च, 2001

सं० ए-12025/10/98-प्रशा० II.—योजना आयोग की दिनांक 29-12-1999 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी श्रीमती (डा०) पूनम श्रीवास्तव, की तदर्थ आधार पर नियुक्ति को 23 दिसम्बर, 1999 के स्थान पर 19 दिसम्बर 1999 से प्रभावी करने का निर्णय लिया गया है।

2. योजना आयोग की दिनांक 29-9-1999 की पूर्ववर्ती समसंख्यक अधिसूचना तदनुसार वापिस ली जाती है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 मार्च 2001

सं० 3(1)/2001-का० 1—राष्ट्रपति जी ने निम्नलिखित वैयक्तिक/तदर्थ आधार पर उप निदेशकों की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 10000-325-15200/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 23-03-2001 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर उपनिदेशक नियुक्त किया है :—

- (i) श्रीमती रूबी बहल
- (ii) श्री ए० पी० नेगी
- (iii) श्री गिरीश सहाय
- (iv) श्री ओ० पी० यादव
- (v) श्री एम० एम० रावत

प्रवीण कुमार दस, संयुक्त निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 मार्च 2001

सं० 181/2/2001—श्री एच० एस० सेठी, भारतीय सांख्यिकीय सेवा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के ग्रेड III (एस० टी० एस०) अधिकारी को एतद्वारा भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में तारीख 20-03-2001 से एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रु० 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में उप-निदेशक (सांख्यिकी) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान, श्री सेठी, कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के और समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं० 2/29/91-स्था० (वेतन-II), तारीख 5 जनवरी, 1994 के अनुसार अपने मूल ग्रेड के साथ अपने ग्रेड वेतन पर प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग के रूप में वेतन ग्रहण करेंगे।

3. पुनर्रक्ष: वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण आधार पर भारत निर्वाचन आयोग में दिनांक 01-05-1998 से उप निदेशक (सांख्यिकी) का पद धारण किया हुए भारतीय सांख्यिकीय सेवा में ग्रेड -III (एस० टी० एस०) अधिकारी, श्री जी० एस० एन० मूर्ति, को एतद्द्वारा भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में दिनांक 20-03-2000 से अथवा अगले आदेशों तक, उप-निदेशक (सूचना संव) के रूप में पदाभिहित किया जाता है।

आदेश से,

ललित मोहन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 मार्च 2001

सं० ए-19/जी०-ए०/62--निर्वाचन आयोग के 03 जुलाई, 1996 के समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में और 16 मार्च, 2001 की कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की संसूचना सं० 27/9/2001--ई० ओ० (एस० एम० आई०) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त श्री सायन चटर्जी की प्रतिनियुक्ति की अवधि 30-06-2001 के बाद एक वर्ष के लिये या अगले आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले पड़े, बढ़ाई जाती है।

आदेश से,

ए०एन० आ
निदेशक (प्रशासन) एवं प्रधान सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2001

सं० ए-38012/3/2000-प्रशा० 4 (वि० का०)--निर्वसन की आयु प्राप्त कर लेने पर, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में प्रधान निजी सचिव श्री बी० आर० भाटिया को दिनांक 28 फरवरी, 2001 अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो जायेंगे।

वी० अन्नतकृष्णन, उप सचिव

दिनांक 16 मार्च 2001

सं० ए-12034/1/2000-प्रशा०-4 (वि० का०)--राष्ट्रपति, हथ विभाग के वैयक्तिक सहायक श्री जी० एस० वसीर को दिनांक 5-3-2001 (पूर्वाह्न) से माननीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति की अरुण जेटली की इच्छा से और उसके विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री के पद पर बने रहने तक सहवर्ती आधार पर की जाती है।

वी० अन्नतकृष्णन, उप सचिव

सं० ए-12034/1/2000-प्रशा०-4 (वि० का०)--राष्ट्रपति विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री के अपर निजी सचिव के रूप में कार्यरत श्री जी० एस० वसीर की सेवाओं को दिनांक 02-03-2001 से विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में वैयक्तिक सहायक के रूप में उनके काइर को सौंपते हैं।

वी० अन्नतकृष्णन उप सचिव

दिनांक 22 मार्च 2001

फा० सं० ए-11011/1/2000-प्रशा०-4 (वि० का०)--केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण (अध्यक्ष एवं सदस्यों की भर्ती, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2000 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि कार्य विभाग के श्री ओ०पी० नाहर, विधि सलाहकार (अभिहस्तांतरण) को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के अधीन विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण, नई दिल्ली का अंशकालिक सदस्य नियुक्त करती है।

वी० अन्नतकृष्णन, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2001

सं० ए-12025/3/2000-प्रशा०-1 (वि० का०)--संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर, राष्ट्रपति, विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के श्री ओम प्रकाश वर्मा, सहायक विधि सलाहकार को दिनांक 14-3-2001 से अगले आदेश तक उसी विभाग में रु० 12,000-375-16,500 के वेतनमान में स्थानापन्न रूप से उप विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर नियुक्त करते हैं।

अ० कु० सौनिक, निदेशक (स्थापना)

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2001

सं० के० 13014/7/2000-यू० एस० 1--भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति श्रीमति निशिता निर्मल म्हात्रे तथा श्री अलाहुसस स्तनिसलोस अग्यार को वरिष्ठता के उक्त क्रम में अपने-अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए बंबई उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

दुर्गा दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

सं० 13020/5/2000-यू० एम० II--जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 95 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री सय्यद बशीर उद्दीन को अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

दुर्गा दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

दिनांक 27 मार्च 2001

सं० के 13018/1/2000-यू० एम० I—भारत क संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति श्री शरदकुमार देवसाद वषे को अपने पद का कार्यभार संभालने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2001

सं० 20/जी/1003-प्रशा०—राष्ट्रपति, स्मिता नाग-राज, भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडु : 84), निदेशक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का कार्यकाल, तीन महीने के लिए, अर्थात् 1 अप्रैल, 2001 से 1 जुलाई, 2001 तक अथवा अगले आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

राजेश्वर दयाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2001

सं० 13017/4/97-अ०भा०से०-I—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सिक्किम और उत्तर प्रदेश सरकारों की सहमति से, केन्द्रीय सरकार श्री भगवान शंकर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर०आर० : 88) को उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन दिनांक 8-1-2001 से दो और वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन करती है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2001

(मुख्यालय स्थापना)

सं० 15 (फा० सं० ए-19011/2/95-प्रशा०-I)—भारत सरकार राजस्व विभाग में स्थापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक श्री एच० पी० कुमार, के दिनांक 05-01-2001 (पूर्वाह्न) को हुए निधन को संखेव अधिसूचित करती है।

प्यारे लाल, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2001

सं० पी० एफ० सी० ए०/357/प्र० I—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति, श्री शरद गणेश आचार्य को दिनांक 1 मार्च, 2001 की पूर्वाह्न से भारतीय लागत लेखा सेवा, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में रु० 10,000-325-15200/- के वेतनमान में उप-निदेशक (लागत) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 2001

सं० 1/20/2001/एम-2—राष्ट्रपति, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ उपमहानिदेशक श्री रवि शंकर को 1 अप्रैल, 2001 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक 26,000/-रुपए (निश्चित) के वेतनमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में महानिदेशक के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

हेम पाण्डे, निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 30 मार्च 2001

सं० एस० एम०/01/002/2001—राष्ट्रपति, भारत के महासर्वेक्षक लैफ्टिनेंट जनरल ए० के० आहूजा की सेवा अवधि को उनकी अधिवर्षिता की आयु, अर्थात् 31 मार्च, 2001 के पश्चात्, छः माह की अवधि के लिए अर्थात् 30 सितम्बर 2001 या नियमित व्यवस्था होने तक, जो पहले घटित हो, के लिए सहर्ष बढ़ाते हैं।

बी० के० रामचन्दानी, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2001

सं० 48-1/98-फ० प्र०-III (खण्ड-II)—राष्ट्रपति, तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद में संयुक्त निदेशक, डा० आर० वी० सिंह को 2-3-2001 की पूर्वाह्न से तीन वर्षों की अनाधिक अवधि या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर गेहूँ विकास निदेशालय, गाजियाबाद में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० जैन, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 2001

सं० 7/2/2000-भुज-I—राष्ट्रपति, श्री सोमनाथ, वरिष्ठ कार्टोग्राफर को पदोन्नति द्वारा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में रु० 8000-13500/- के वेतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 13-11-2000 से आर्टिस्ट (समूह-क) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वे पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होंगे।

सोहन सिंह मैनी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2001

सं० 6/5/99-ग० बे०-फ० ब० परि०—राष्ट्रपति ने विशिष्ट सुरक्षा ब्यूरो के सब एरिया आर्गनाइजर श्री अपूर्व कुमार नाथ को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 16 फरवरी, 2001 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए 10000-325-15200/- रुपए के वेतनमान में प्रशासनिक अधिकारी फरक्का बैंगल परियोजना के पद पर नियुक्त किया है।

राधे श्याम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2001

सं 4/2000-फारल सं 14/2001-प्रशा-1-राष्ट्रपति,
श्री वी० एन० नवलसिंगा, निदेशक सातवां आयाम का
दिनांक 31-03-2001 के अधिनियम में 26,000-रु० (नियत)
के वेतनमान में अगले आदेशों तक, नीचे के जल संसाधन
मंत्रालय के रूप में नियुक्त करने हैं।

सरका कुमारी गुप्ता, अवर सचिव।

उम राजालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2001

सं जड-13011/1/97-सी० एल० एन-11-राष्ट्रपति,
श्री एस० एन० सानदावरकर, निदेशक आचार्यता जिला और
सब न्यायाधीश का 01 दिसम्बर, 2000 (अपरान्त) से

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 31st April 2001

No. A.30013/1/2001-P.M.A.—Onsequent upon attaining the
age of superannuation, Shri L. K. Anand, Private Secretary
of the Prime Minister's Headquarters Secretariat, Ministry of
Defence and appointed on the personal staff of
Prime Minister in the same capacity has relinquished the
charge of the post in the Prime Minister's Office with effect
from the afternoon of 31st March, 2001.

P. K. ROY, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 4th April 2001

No. RS/2(n)/2001/22-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha
has been pleased to appoint Shri Vinay Sankar Singh, Senior
Executive Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate
in the cadre of Legislative Executive/Committee/Protocol
Officer in that Secretariat with effect from the forenoon of
the 1st April, 2001, against the deputation chain vacancy of
Shri Jagmohan Soodhial, Under Secretary until further
orders.

2. Smt. Subhashree Patgiri who was earlier appointed to
officiate in the cadre of Executive/Executive/Committee/
Protocol Officer against the deputation chain vacancy of Shri
Jagmohan Soodhial, Under Secretary and Notification No.
RS/2(n)/2001/19-Perl dated 14th February, 2001 has now
been appointed on a regular basis in the grade with effect
from the forenoon of the 1st April, 2001 until further
orders.

3. The above appointments would be subject to the orders of
Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition
No. 3025/88.

VANDANA GARG, Director

No. RS, 2(n)/2001/21 Perl.—The Chairman, Rajya Sabha
has been pleased to appoint Shri Suresh Sekaran an officer
in the cadre of Legislative Executive/Committee/Protocol
Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre
of Under Secretary/Pay & Accounts Officer in that Secretariat
with effect from the forenoon of the 1st April, against the
deputation vacancy of Shri Jagmohan Soodhial, Under
Secretary until further orders.

2. Shri Ummed Singh Mandi who was appointed to officiate
in the cadre of Under Secretary/Pay & Accounts Officer
against the deputation vacancy of Shri Jagmohan Soodhial, Under
Secretary and Notification No. RS/2(n)/2001/19-Perl dated 14th
February, 2001 has now been appointed on a regular basis in the grade with effect from the
forenoon of the 1st April, 2001 until further orders.

2-22 GI/2001

अगले आदेशों तक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण
महेश्वर न्यायालय संख्या-2 मुम्बई, के पीठासीन अधिकारी
के रूप में नियुक्त करने हैं।

श्रीमती कृष्णा शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 29 मार्च 2001

सं जड-13011/1/97-सी० एल० एन-11-राष्ट्रपति, श्री
इ० इस्माइल, सेवा-निवृत्त जिला तथा सब न्यायाधीश ग्रेड
I को 20 अक्टूबर, 2000 में अगले आदेशों तक केन्द्रीय
सरकार औद्योगिक अधिकरण महेश्वर न्यायालय, हैदराबाद
के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने हैं।

श्रीमती कृष्णा शर्मा, अवर सचिव

3. The above appointments would be subject to the orders
of Delhi High Court at the time of final disposal of Writ
Petition No. 3025/88.

VANDANA GARG, Director

No. RS/838/Estt. (P).—On attaining the age of superan-
nation, Shri Mahinder Sankia, Under Secretary retired from
service with effect from the afternoon of the 31st March,
2001.

VANDANA GARG, Director

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 29th March 2001

No. LS 10/2001/AN-I/GN-4554/2001.—The Speaker is
pleased to appoint Shri Manjul Kumar Pandey as Parliamen-
tary Interpreter Grad-II in scale Rs. 8000-275-13500 on ad-
hoc with effect from the forenoon of 26th March, 2001 until
further orders.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

The 30th March 2001

No. LS-1713(3)/AN-I/GN-4555/2001.—The Speaker is
pleased to appoint Shri T. S. Samuel, Assistant Director (Secu-
rity) in the scale of Rs. 10000-15200 who was allowed to
hold the charge of the post of Deputy Director (Security) vide
Notification No. GN-4513/2000 dated 21-12-2000, as Deputy
Director (Security) in the scale of Rs. 12000-375-16500 with
effect from 29th March, 2001 until further orders.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

No. PF.2120(3)/AN-I/GN-4556/2001.—The Speaker is
pleased to appoint the following Senior Security Assistants in
the scale of Rs. 7450—11500 who were allowed to hold the
charge of the post of Security Officer vide Notn. No. GN-
4464/2000 dated 24-07-2000, as Security Officer in the scale
of Rs. 8000-275-13500 in an officiating capacity with effect
from 29th March, 2001 until further orders :—

1. Shri Bal Kishan Ram

2. Shri Lal Chand Rautaria

They will be on probation in the grade of
Senior Security Assistant for a period of 2 years with effect from 29th
March, 2001 until further orders.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 30th March 2001

No. 3/1(2)/2001-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :

Sl. No., Name, Post & Date of relief

Shri/Smt./Kum.

S. M. Gurjar, Scientist/Engineer-SF—30-11-2000.

K. M. Mathew, Scientist/Engineer-SF—30-11-2000.

A. Unnikrishnan, Head, Personnel & General Administration—29-12-2000.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2001-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Shri Ch. Srinivasa Sastry, Scientist/Engineer-SF in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 5-1-2001.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SD in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :

Sl. No., Name and Date of appointment

Shri/Smt./Kum.

1. Dr. C. Suresh Raju—14-11-2000.

2. Dr. Amit Kumar Patra—30-11-2000.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :

Sl. No. Name, Post from which Promoted Post to which Promoted Date of Promotion

Shri/Smt./Kum.

1. R. K. Lulla, Purchase Officer Senior Purchase Officer—29-11-2000.

2. S. Philomin Raj, Purchase Officer Senior Purchase Officer—06-11-2000.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2001-I.—The President is pleased to accept the request for the Voluntary retirement from service of the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :

Sl. No., Name, Post & Date of Voluntary Retirement

Shri/Smt./Kum.

1. K. J. Jathavedan, Scientist/Engineer-SF—24-01-2001

2. A. V. Hanumantha Rao, Scientist/Engineer-H—31-01-2001

3. Dr. AVSSSR Sarma, Scientist/Engineer G—01-02-2001

4. K. Ramachandran Pillai, Scientist/Engineer-SE—01-02-2001

5. M. Ramakrishnan, Scientist/Engineer G—07-02-2001

6. K. Ramani, Scientist/Engineer-SG—01-03-2001

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2001-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :

Sl. No., Name, Post & Date of Resignation

Shri/Smt./Kum.

1. Ajit C. S. Scientist/Engineer-SI—29-12-2000

2. M. Preethi Scientist/Engineer-SC—08-02-2001

3. Bharat Buashan, Scientist/Engineer-SC—15-02-2001

4. T. G. Baham, Scientist/Engineer-SI—16-02-2001

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2001-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :

Sl. No., Name, Post & Date of Resignation

Shri/Smt./Kum.

1. P. Radhakrishnan, Scientist/Engineer-SC—21-09-2000

2. S. Pradeep Padman, Scientist/Engineer-SD—29-09-2000

3. Sanjay Kumar Trivedi, Scientist/Engineer-SC—03-11-2000

4. Ram Dhani Chauhan, Scientist/Engineer-SC—06-11-2000

5. T. Jayasekhar, Scientist/Engineer-SI—24-11-2000

6. S. Narayanan, Scientist/Engineer-SE—30-11-2000

7. V. K. Noushad, Scientist/Engineer-SD—15-12-2000

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2000-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :

Sl. No., Name, Post & Date of relief

Shri/Smt./Kum.

1. Dr. M. M. Singh Bisht, Scientist/Engineer-SG—29-12-2000

2. K. Krishnan Nair, Scientist/Engineer-SF—31-01-2001

3. Abraham I. Mathew, Scientist/Engineer-SF—31-01-2001

4. R. Chandrasenan Pillai, Scientist/Engineer-SE—31-01-2001

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2000-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation Shri K. P. Vijayan, Scientist/Engineer-SD in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 29-12-2000.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :

Sl. No., Name & Date of appointment

Shri/Smt./Kum.

1. S. Anoop—03-11-2000
2. S. Reshmi—09-11-2000
3. Anurag Sobti—07-12-2000
4. A. Yezhil Arasu—19-01-2001
5. Ravikiran N. K.—22-01-2001
6. Prasanna G.—24-01-2001
7. I. Suresh—24-01-2001
8. R. S. Pugazenthi—31-01-2001
9. Shailendra I. Tiwari—01-02-2001
10. Sudipta Pramanik—02-02-2001

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2001-I.—The President regrets to announce the death of Shri M. Venkataraman, Scientist/Engineer-SF in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on 01-01-2001.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2000-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :

Sl. No., Name & Date of appointment

Shri/Smt./Kum.

1. Brijesh Kumar Soni—19-12-2000
2. Rakesh Pritmani—29-12-2000
3. K. R. Bhuvaneswari—29-12-2000
4. G. Meena—29-01-2001
5. Sangeetha K.—29-01-2001
6. G. S. Ashwin—29-01-2001
7. Sanjoy Paramanik—02-02-2001
8. Sanjay Mittal—05-02-2001
9. Anem Sreedevi—08-02-2001
10. J. Kalai Selvi—08-02-2001
11. Sandhya Raghunath—12-02-2001
12. Narayana Swamy H. P.—16-02-2001
13. Abhilasha Prasad—20-02-2001

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :

Sl. No., Name & Date of appointment

Shri/Smt./Kum.

1. G. M. Mallikarjuna—05-03-2001
2. Pratap Narayan Chaurasiya—19-02-2001
3. Chetan Gangasani—05-03-2001

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-07-2000 and until further orders.

Sl. No., Name, Post from which promoted and Post to which promoted

Shri/Smt./Kum.

1. N. C. Bhat, Scientist/Engineer-SG—Scientist/Engineer-G.
2. Arun Batra, Scientist/Engineer-SG—Scientist/Engineer-G.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SC as Scientists/Engineers-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2001 and until further orders :

Shri/Smt./Kum.

1. Manish Trikha
2. S. Ramabadran

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(2)/2001-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Rajesh Bhaskar, Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 16-03-2001.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(2)/2001-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Manoj Mishra, Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 09-03-2001.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(2)/2001-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Satish Kumar Sangtani, Scientist/Engineer-SE in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space with effect from the afternoon of 28-02-2001.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 7/1(2)/2001-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Anil Kumar M. S., Scientist/Engineer-SD in the Liquid Propulsion Systems Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 05-03-2001.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 7/1(2)/2001-I.—Consequent on acceptance of the request for Voluntary retirement, Shri Sukumaran Nair M. S., Scientist/Engineer-SD in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 20-02-2001.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 7/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-Sc in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :

Sl No., Name and Date of Appointment

Shri/Smt./Kum

1. Raji George, 18-01-2001.
2. Aji M. Abraham, 22-01-2001.
3. Abilash P. M., 24-01-2001.
4. Rajesh G., 05-02-2001.
5. Vinodh Babu V., 05-02-2001.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi-110001, the 8th March 2001

No. A-19 (583)/89-Adm.II.—In continuation of the Planning Commissions' notification of even number dated 16-08-2000, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of Ms. Renu Sobti, Research officer, as Senior Research Officer (Educational Planning) in the Planning Commission for a period of six months beyond 12th February 2001 or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will not bestow upon her any right to claim for regular appointment to the post of Senior Research Officer, count for seniority etc.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

The 26th March 2001

No. A-19 (726)/96-Adm.II.—In pursuance of the Planning Commission's order of even number dated the 22nd February 2001, Dr. (Ms.) Madhulika Shukla, Senior Research Officer (Educational Planning), Planning Commission, on being permitted to resign from Government service with effect from 26-03-2001 (F/N) has relinquished the charge of the post and has been relieved from the Planning Commission w.e.f. 26-03-2001 (F/N).

RAVJIT SINGH, Under Secy.

New Delhi-110 001, the 12th March 2001

No. A-12025/10/98-Adm.II.—In continuation of the Planning Commission's notification of even number dated 29-12-1999, it has been decided to treat the appointment of Smt. (Dr.) Punam Srivastava as Senior Research Officer in the Planning Commission on ad-hoc basis to be effective from 1st September 1999 instead of 23rd December 1999.

2. The Planning Commission's earlier notification of even number dated 29-09-1999 accordingly stands withdrawn.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi-110 003, the 30th March 2001

No. 3(1)/2001-Pers.I.—The president is pleased to appoint the following Deputy Directors on personal/ad-hoc basis as Deputy Directors on regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-305-15200 in the Ministry of Information Technology, with effect from the forenoon of 27-03-2001.

- (i) Smt. Ruby Bahl
- (ii) Shri A. P. Negi
- (iii) Shri Girish Sahai
- (iv) Shri O. P. Yadav
- (v) Shri S. S. Rawat

P. K. DATTA is Director

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 30th March 2001

No. 181/2/2/01/6875.—Shri H. S. Sethi, Grade-III (STS) Officer of I.S.S., Ministry of Statistics & Programme Implementation is hereby appointed as Deputy Director (Statistics) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on transfer on deputation basis in the Secretariat of the Election Commission of India for a period of one year w.e.f. 20-03-2001 or until further orders, whichever is earlier.

2. During the period of deputation Shri Sethi will draw pay in his parent grade plus deputation allowance on his grade pay in terms of DOPT O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated, 5th January, 1994 and as amended from time to time.

3. Further Shri G. S. N. Murthy, a Grade-III (STS) officer of ISS presently holding the post of Deputy Director (Statistics) on transfer on deputation basis in the Election Commission of India w.e.f. 01-05-1998, is hereby designated as Deputy Director (Information System) in the Secretariat of the Election Commission of India w.e.f. 20-03-2001 and until further orders.

By Order

LALIT MOHAN, Under Secy.

New Delhi-110001, the 31st March 2001

No. A-19/G-A/62/6880.—In continuation of the Commission's Notification of even No. dated 3rd July 1996 and in pursuance of Department of Personnel and Training Communication No. 27/9/2001-EO (S.M.I.), dated 16th March, 2000, the tenure of deputation of Shri Sayan Chatterjee, IAS (KL : 76), Deputy Election Commissioner, in the Election Commission of India is hereby extended for a further period of one year beyond 30-06-2001 or until further orders, whichever is earlier.

By Order

A. N. JHA, Dir. (Admn.)-Cum-Principal Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO. AFFAIRS

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 28th February 2001

No. A. 38012/3/2000-Adm.IV(JA) —On attaining the age of superannuation, Shri B. R. Bhavia, Principal Private Secretary in the Department of Legal Affairs Ministry of Law, Justice and Company Affairs stands retired from Government service with effect from the afternoon of the 28th February, 2001.

V. ANANTHAKRISHNAN Dy. Secy.

The 16th March 2001

No. A-12034/1/2000-Admn.IV(LA).—The President is pleased to place the service of Shri G. S. Vasir who is working as Addl. P. S. to Hon'ble Minister for Law, Justice & Company Affairs, in his cadre as P.A. in the Ministry of Law, Justice & Company Affairs, Department of Legal Affairs w.e.f. 02-03-2001.

V. ANANTHAKRISHNAN Dy. Secy.

No. A-12034/1/2000-Admn.IV(LA) —The President is pleased to appoint Shri G. S. Vasir P.A. of this Department as Additional Private Secretary to the Hon'ble Minister for Law, Justice & Co. Affairs (Shri Arun Jaitley) w.e.f. 5-03-2001 (F/N).

2. The above appointment is made at the pleasure of, and is co-terminous with the tenure of, Shri Arun Jaitley as Minister for Law, Justice & Co. Affairs.

V. ANANTHAKRISHNAN, Dy. Secy.

The 22nd March 2001

No. A-11011/1/2000-Admn.IV (LA).—In exercise of the powers conferred by Rule 5 of the Appellate Tribunal for Foreign Exchange (Recruitment, Salary and allowances and other conditions of service of Chairperson & Member) Rules, 2000, the Central Government hereby appoints Shri O. P. Nahar, Legal Adviser (Conveyancing) in the Department of Legal Affairs as part time Member of the Appellate Tribunal for Foreign Exchange, New Delhi under the Ministry of Law, Justice & Co. Affairs, Department of Legal Affairs with immediate effect and until further orders.

V. ANANTHAKRISHNAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 15th March 2001

No. A-12025/3/2000-Admn.I (LA).—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Om Prakash Verma, Assistant Legal Adviser in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice & Co. Affairs to officiate as Deputy Legal Adviser (Grade III of Indian legal Service) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 in the same Department with effect from 14-3-2001 until further orders.

A. K. SONIK, Director (Estt.)

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi, the 21st March 2001

No. K. 13014/7/2000.US.I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shrimati Nishita Nirmal Mhatre and Shri Aloysius Stanislaus Aguiar, to be Additional Judges of the Bombay High Court, in that order of seniority, for a period of two years each with effect from the date they assume charge of their respective office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

The 21st March 2001

No. K. 13020/5/2000.US.II.—In exercise of the powers conferred by section 95 of the Constitution of Jammu and Kashmir, the President is pleased to appoint Shri Justice Syed Bashir Ud Din, Additional Judge of the High Court of Jammu and Kashmir, to be a Judge of the High Court of Jammu and Kashmir with effect from the date he assumes charge of his office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

The 27th March 2001

No. K. 13018/1/2000.US.I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India the President is pleased to appoint Shri Sharad-kumar Devprasad Dave, to be an Additional Judge of the Gujarat High Court for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 30th March 2001

No. 20 G/1003-Ad.I.—The President is pleased to extend the tenure of Smt. Smrita Nagaraj, IAS (TN : 84), Director, Department of Personnel and Training for a period of three months beyond 1st April, 2001 i.e. upto 1st July, 2001 or until further orders, whichever is earlier.

RAJESHWAR DAYAL, Under Secy.

New Delhi, the 30th March 2001

No. 13017/4/97-AdS(I).—In exercise of the power conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Uttar Pradesh and Sikkim, the Central Govt. hereby accords approval for extension of deputation of Shri Bhagwan Shankar, IAS (RR:88), borne on the IAS Cadre of Sikkim, for service under the Govt. of Uttar Pradesh for a further period of two years from 8-1-2001.

K. K. SHARMA
Desk Officer

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 27th February 2001

(HEADQUARTERS ESTABLISHMENT)

No. 15 (F. No. A. 19011/2/95-Ad.I).—The Government of India regrets to notify the death of Shri H. P. Kumar, Director General, NCB in the Department of Revenue on 5-1-2001 (FN).

PYARE LAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 28th March 2001

No. PFCA/357/Ad.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Sharad Ganesh Acharya to the post of Dy. Director (Cost) in the Indian Cost Accounts Service, Ministry of Finance, Department of Expenditure, with effect from the forenoon of the 1st March, 2001 and until further orders in the scale of Rs. 10,000-325-15200/-.

K. D. UPRETI, Under Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 4th April 2001

No. 1/20/2000-M.II.—The President is pleased to appoint Shri Ravi Shankar, Senior Deputy Director General, Geological Survey of India as Director General, Geological Survey of India on regular basis in the scale of pay of Rs. 26,000/- (fixed) with effect from the forenoon of 1st April, 2001 and until further orders.

HEM PANDE, Director

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110 0166, the 30th March 2001

No. SM/01/002/2001.—The President is pleased to grant extension in service to Lt. Gen. A. K. Ahuja, Surveyor General of India beyond the age of superannuation i.e. 31st March, 2001 for a period of six months i.e., 30th September, 2001 or till regular arrangements are made, whichever is earlier.

B. K. RAICHANDANI, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 30th March 2001

No. 48-I/98-CA.III (Vol. II).—The President is pleased to appoint Dr. R. V. Singh, Joint Director, Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad as Director, Directorate of Wheat Development, Ghaziabad on deputation basis for a period not exceeding 3 years with effect from the forenoon of 2-3-2001 or until further orders, whichever is earlier.

S. K. JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the March 2001

No. 7/2/2000-GW.I.—The President is pleased to appoint Shri Somnath, Senior Cartographer as Artist (Group-A) by promotion in the pay scale of Rs. 8000—13500/- in Central Ground Water Board wef the date of his taking over charge of the post i.e. 13-11-2000.

He will be on probation for a period of two years from the date of his taking over charge of the post.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

New Delhi, the 26th March 2001

No. 6/5/99-GB-FBP/396.—The President is pleased to appoint Shri Apurba Kumar Nath, an officer of Special Security Bureau, as Administrative Officer in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- on deputation basis in Farakka Barrage Project, Distt. Murshidabad, for a period of three years wef 16-2-2001 (F/N).

RADHEY SHYAM, Under Secy.

New Delhi, the 31st March 2001

No. 4/2001 F. No. 2/4/2001-Admn.—The President is pleased to appoint Shri B. N. Navalawala, Adviser, Planning

Commission as Secretary, Ministry of Water Resources in the scale of Rs. 26000/- (fixed) wef the afternoon of 31-3-2001, until further orders.

N. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 28th March 2001

No. Z-13011/1/97-CLS-II.—The President is pleased to appoints Shri E. Ismail, retired District & Sessions Judge & Sessions Judge as Presiding Officer, Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Mumbai wef the afternoon of 1st December, 2000 till further orders.

Smt. KRISHNA SHARMA, Under Secy.

The 29th March 2001

No. Z-13011/1/97-CLS-II.—The President is pleased to appoint Shri E. Ismail, retired District & Sessions Judge Grade I as Presiding Officer, Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad wef the afternoon of 20th October 2000 till further orders.

SMT. KRISHNA SHARMA, Under Secy.